



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 अग्रहायण 1936 (श10)
(सं0 पटना 989) पटना, शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2014

सं0 3ए-2-वे0पु0-01/2014—11373-वि0

वित्त विभाग

संकल्प

5 दिसम्बर 2014

विषय:—न्यायासन पदाधिकारी (Court Officer) को प्रशाखा पदाधिकारी (वितनमान रू0 6500-10500/-) के समकक्ष उत्क्रमित करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में ।

माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2004 में न्यायासन पदाधिकारी (Court Officer) के कार्य की महत्ता एवं गुरुत्तर दायित्व को ध्यान में रखते हुए Patna High Court officers and Staff (conditions of Service and Conduct) Rules 1997 में संशोधन करते हुए इस पद को दिनांक 01/04/2004 के प्रभाव से प्रशाखा पदाधिकारी (वितनमान 6500-10500/-) के समकक्ष उत्क्रमित किया गया है ।

2. न्यायासन पदाधिकारी के लिए दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से वेतनमान रू0 5500-9000/- एवं प्रशाखा पदाधिकारी के लिए रू0 6500-10500/- तथा दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से पी0बी0-2+4800/- (चार वर्ष बाद पी0बी0-3+5400/-) स्वीकृत है ।

3. प्रशाखा पदाधिकारी के समकक्ष उत्क्रमण के फलस्वरूप न्यायासन पदाधिकारी के लिए प्रशाखा पदाधिकारी के समकक्ष उत्क्रमित पद एवं वेतनमान पर घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

4. सम्यक् विचारोपरान्त न्यायासन पदाधिकारी (Court Officer) को उत्क्रमण की तिथि से प्रशाखा पदाधिकारी के समान 6500-10500/- एवं दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से पी0बी0-2+ग्रेड-पे-4800/- तथा चार वर्ष की सेवा के बाद पी0बी0-3+ग्रेड-पे-5400/- के वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रभात शंकर,

सरकार के विशेष सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 989-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>